

# CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED

Head Office: Plot No.12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi – 110070

Ph:91-11-40322100 CIN:L33200UP1993PLC015474 Email: cs\_cfhl@jindalgroup.com

Website: www.consofinvest.com

CFHL/SECTT/JUNE26/106

01<sup>st</sup> June, 2026

The Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1  
Block G, Bandra-Kurla Complex,  
Bandara (East), Mumbai – 400 051

Ref: Code: CONSOFINVT Series : Eq

Subject: Intimation under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") - Newspaper clippings of the published financial results

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 47(1) and (3) read with Schedule III of the SEBI Listing Regulations, the Company hereby informs that the Audited Standalone Financial Results, in accordance with Regulation 33, for the quarter and year ended on 31<sup>st</sup> March, 2026 for the Financial Year 2025-26 have been published in Jansatta (Hindi) and Financial Express (English) Newspapers on 31<sup>st</sup> May, 2026 the copies whereof are attached herewith for your records.

As required under Regulation 46(2) (1) and (q) the said publications have also been placed, for reference of the members, on the Company's website at [www.consofinvest.com](http://www.consofinvest.com) as well as on the website of National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

This is for your information and records please.

Thanking you

For Consolidated Finvest & Holdings Limited

  
Mohit Srivastava  
Company Secretary  
ACS-28505



**CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED**

CIN: L65923UP2012PLC051433  
 Regd. Office : 19th K.M., Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaathi, Bulandshahr (U.P.)  
 Head Office: Plot No. 12, Local Shopping Complex, Sector - B -1, Vasant Kunj, New Delhi - 110070  
 Tel. No.: 011 - 40322100, E-mail: c.fhl@indialgroup.com, website: www.consofinvest.com

**EXTRACTS OF THE STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2026**

(Rs. In Lakh except EPS)

PARTICULARS	Quarter Ended 31st March 2026	Quarter ended 31st March 2025	Year Ended 31st March 2026	Year Ended 31st March 2025
	Audited	Unaudited	Audited	Audited
Total Income from operations	1464	2,260	6,235	7,143
Net Profit for the period (before Exceptional items and tax)	1,452	2,246	6,175	7,088
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,452	2,246	6,175	7,088
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,377	2,293	5,410	10,827
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	4,436	7,124	13,560	21,928
Total Comprehensive Income for the period attributable to owner of the parent	4,436	7,124	13,560	21,928
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/- each)	3233	3233	3,233	3,233
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) on Net Profit (Not annualised)				
- Basic and Diluted	4.26	7.09	16.73	33.49

**Notes:**  
 1. Financial Results has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder.  
 2. The above results were reviewed by the Audit Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors at their respective meetings held on 30th May, 2026 and audit of these results has been carried out by the Statutory Auditor of the Company.  
 3. The Board of Directors in their meeting held on May 30, 2026 has recommended final dividend of Rs.1.47 per share for the Financial Year 2025-26 subject to the approval of the shareholders in the Annual General Meeting.  
 4. The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and also on the Company's website at www.consofinvest.com.



For Consolidated Finvest & Holdings Limited  
 Sd/-  
 Sanjiv Kumar Agarwal  
 Managing Director  
 DIN: 01623575

Place : New Delhi  
 Date : 30th May, 2026

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**SBC EXPORTS LIMITED**

CIN: L18100UP2011PLC043209

Regd. Off.: 9, Lohiya Talab, Chhoti Basahi P.O. Vindhyachal, Mirzapur, Uttar Pradesh, India, 231307  
 Tel: 0120-2895246, Email: info@sbcexportslimited.com, Website: www.sbcexportslimited.com

**Statement of Audited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and Year ended on March 31, 2026**

1. The Audited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2026 ('Financial Results') have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 29th May, 2026. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's website at https://www.sbcexportslimited.com/financial-results and can be accessed by scanning the QR code.  
 Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015.  
 2. UPDATE KYC DETAILS WITH DEPOSITORY PARTICIPANT (DP) Shareholders are requested to ensure that their KYC details including e-mail address, mobile number, PAN, bank account details, nomination details and other contact information are updated with their respective Depository Participant ('DP') / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA'), as applicable. Shareholders who have not yet registered or updated their e-mail address, mobile number and other contact details are requested to do so at the earliest to facilitate timely receipt of notices, financial statements and other communications from the Company.



Place: Shahibabad  
 Date: 29-05-2026

SD/-  
 Govind Ji Gupta  
 Managing Director

**CREDIT GLOBAL FINANCE LIMITED**

CIN No. L65910MH1991PLC0404531

Regd. Office: Unit No 1216, 12th Floor, C-Wing, One BKC, G-Block, Opposite Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051, MH IN  
 Email: compliance@creditglobal.com

**STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026**

(Rs. In Lakhs) except EPS

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated				
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended		
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations (net)	273.70	2,574.20	282.59	4,251.07	981.20	304.58	2,586.80	301.58	4,357.73
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	229.09	2,409.04	10.63	3,715.84	287.47	(10.14)	2,357.46	322.05	3,338.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	229.09	2,409.04	10.63	3,715.84	287.47	(10.14)	2,357.46	322.05	3,338.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	170.77	1002.12	1.73	2,796.27	216.53	0.69	1,758.61	330.68	2,500.79
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]**	(101.86)	2,460.43	(115.20)	3,532.06	113.25	(159.25)	2,417.08	509.46	3,197.95
6	Equity Share Capital	1,229.22	1,029.22	1,029.22	1,229.22	1,029.22	1,229.22	1,029.22	1,029.22	1,229.22
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				11,722.64	5,407.49				
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) not annualized for Quarter									
		0.32	3.50	0.00	5.32	0.42	0.00	3.42	0.64	4.76
		0.32	3.50	0.00	5.32	0.42	0.00	3.42	0.64	4.76

**Notes:**  
 1. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th May, 2026.  
 2. The above is an extract of the detailed format of audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2026, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and on company's website creditglobal.com.



Place: Mumbai  
 Date: 30.05.2026

By Order of the Board  
 For Credit Global Finance Limited  
 Sd/-  
 Aditya Vikram Kanoria  
 Managing Director  
 DIN: 07002410

**VIVRITI ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED**

(formerly known as Vivriti Funds Private Limited)

CIN : U66300TN2003PTC052025

Regd. Office: Prestige Zackria Metropolitan No. 20011-8, 8th Floor, Block -1, Annasalai, Chennai - 600002

**Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2026**

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations)]

(₹ in Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 31 March 2026	Quarter ended 31 March 2025	Year ended 31 March 2026
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	6.00	10.05	8.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	0.71	3.51	0.97
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	0.71	3.51	0.97
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	0.54	3.44	0.73
5	Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	0.54	3.44	0.73
6	Paid up Equity Share Capital	8.58	8.58	8.58
7	Outstanding compulsorily convertible preference shares	NA	NA	NA
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	78.88	78.15	78.88
9	Securities Premium Account	65.96	65.96	65.96
10	Net worth	87.46	86.73	87.46
11	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	NA	NA	NA
12	Outstanding redeemable preference shares	NA	NA	NA
13	Debt Equity Ratio	NA	NA	NA
14	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.63 -	4.01 -	0.85 -
15	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
16	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA
17	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
18	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

**Notes:**  
 a) The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) (BSE: www.bseindia.com) and Company's website (www.vivritiamc.com).  
 b) For the items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (BSE) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).  
 For Vivriti Asset Management Private Limited (formerly known as Vivriti Funds Private Limited)  
 Sd/-  
 Vineet Sukumar  
 Managing Director  
 DIN: 06848801

Place : Europe  
 Date : 29 May, 2026

**APIS INDIA LIMITED**

Registered Office: 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110 008

CIN: L10390DL1983PLC164048, Ph: 011-43206650, 011-25713631

website: www.apisindia.com, Email id: mail@apisindia.com

**EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026**

(Rs. In lakhs)

S. No	Particulars	3 months ended	Preceding 3 months ended in current year	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year to date figures for current period ended	Year to date figures for corresponding previous period ended
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Total income from operations (Net)	10,194.33	11,000.08	9,089.74	39,627.75	35,417.45
2	Net profit for the period (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	891.49	840.38	921.19	3,248.30	2,857.35
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	891.49	840.38	921.19	3,248.30	2,857.35
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	711.73	597.93	680.58	2,425.04	2,103.22
5	Total comprehensive income [comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax)]	1,062.45	388.41	814.31	2,559.97	2,535.23
6	Reserve Excluding Revaluation Reserve	-	-	-	6102.23	16766.44
7	Paid up equity share capital (Face value of Re. 10/- each)	13,775.19	13,775.19	551.01	13,775.19	551.01
8	Earnings per share (face value of Rupee 10/- each) (not annualised)					
	Basic and Diluted earnings per share (in Rs.)	0.77	0.28	0.59	1.86	1.84

**Notes:**  
 1. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its respective meeting held on May 30, 2026.  
 2. The Statutory Auditors of the Company have carried out the audit of the aforesaid financial results for the quarter and year ended March 31, 2026, in accordance Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company hereby declares and confirms that Auditors' Report on the audited financial results of the Company is with unmodified opinion.  
 3. The Consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. The consolidated audited financial results represent the results of Apis India Limited (the company), its subsidiaries, ("the Group") and its share in associate Companies, which have been prepared in accordance with Indian AS-110 (Consolidated Financial Statement) and Ind AS-28- investment in Associates & Joint Ventures.  
 4. The audited Standalone and Consolidated financial results of the Company are also available at the Company at www.apisindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.  
 5. The Managing Director has certified that the financial results for the quarter and year ended March 31, 2026, do not contain any false or misleading statement or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.  
 6. The key figures of the Company on standalone basis are as follows: (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026
Total income from operations (Net)	10,194.28	11,000.08	9,088.48	39,627.70
Profit before tax	891.81	840.57	931.29	3,248.62
Profit after tax	712.36	598.12	690.67	2,425.67
Other comprehensive income/Loss	27.78	-	1.59	27.78
Total comprehensive income/Loss	740.14	598.12	692.26	2,453.45

7. The figures for the previous quarter and year ended have been regrouped / rearranged, wherever necessary, to conform to the current period's classification.



Date: May 30, 2026  
 New Delhi.

By Order of the Board  
 For APIS India Limited  
 Amit Anand  
 (Managing Director)  
 DIN:00951321

**NEELAMALAI AGRO INDUSTRIES LTD.**

Regd. Office: No.60, Rukmani Lakshmpathi Salai, Egmore, Chennai, Tamil Nadu - 600008. Tel.: +91 44 2852 7775 / 2858 3463

Corporate Identity Number (CIN): L01117TN1943PLC152874

Website: www.neelamalaiagro.com, E-mail: secneelamalai@avtplantations.co.in

**EXTRACT FROM THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026**

(Rs. In Lakhs, Except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Audited									
1	Total income from operations	698.48	455.70	2,544.84	2,323.67	698.48	455.70	2,544.84	2,323.67
2	Net Profit / (Loss), before exceptional items and tax (before share in profit of associates and joint venture)	(107.67)	(73.99)	356.29	439.23	(320.87)	(256.73)	(258.06)	(126.83)
3	Net Profit / (Loss) after exceptional items and before tax (after share in Profit of Associates & Joint Venture)	(107.67)	(73.99)	356.29	344.23	684.03	432.61	3,017.09	2,319.29
4	Net Profit / (Loss) after Tax	(129.50)	(88.73)	251.39	344.92	662.20	417.87	2,912.19	2,319.98
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(163.96)	(8.51)	338.91	570.86	643.08	583.88	2,965.50	2,557.39
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- per share)	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21
7	Other equity as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year			7,098.57	6,946.28			32,663.71	29,884.83
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (Not Annualised) Basic & Diluted (Rs.)	(20.82)	(14.26)	40.41	55.45	106.45	67.17	468.15	372.95

**Notes:**  
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Financial results filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Year ended Financial results are available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and also on the website of the Company i.e. www.neelamalaiagro.com



Place : Chennai  
 Date : 29.05.2026

AJIT THOMAS  
 CHAIRMAN  
 DIN : 00018691

**कंसोफिनेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड**

सीआईएन: L65923UP2012PLC051433

पंजीकृत कार्यालय: 19वां किमी, हापुड बुलंदशहर रोड, उत्तर प्रदेश  
 प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 12, लोकल गार्डिया कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-बी-1, बडोत कुंज, नई दिल्ली-110070  
 दूरभाष: फ़ोन: 011-40322100, ईमेल: cs\_cfh@jindalgroup.com, वेबसाइट: www.consofinvest.com

**31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए संतंत्र लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अंश**

(राशियाँ रुपये में, इंधन को छोड़कर)

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
संचालन से कुल आय	1464	7,760	8,235	7,143
अवधि के लिए शुद्ध लाभ (अपवाद मदों और कर से पहले)	1,452	2,246	6,175	7,086
अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ (अपवाद मदों के बाद)	1,452	2,246	6,175	7,086
अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (अपवाद मदों के पश्चात)	1,377	2,293	5,410	10,827
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/हानि (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित)	4,436	7,124	13,560	21,928
मूल कंपनी के स्वामी को देय अवधि के लिए कुल व्यापक आय	4,436	7,124	13,560	21,928
मुद्रांतरित इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपये)	3233	3233	3,233	3,233
शुद्ध लाभ पर प्रति शेयर आय (इंधन/प्रत्येक 10/- रुपये का) (वार्षिक नहीं)	4.26	7.09	16.73	33.49

**टिप्पणियाँ:**  
 1. वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ('इंड एस') और उसके अंतर्गत जारी प्रासंगिक नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।  
 2. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और 30 मई, 2026 को आयोजित निर्देशक मंडल की बैठकों में इनके रिपोर्ट में दर्ज किया गया। इन परिणामों की लेखापरीक्षा कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है।  
 3. निर्देशक मंडल ने 30 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.47 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।  
 4. उपरोक्त विवरण एफडीआई (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दखिल किए गए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) और कंपनी की वेबसाइट [www.consofinvest.com](http://www.consofinvest.com) पर उपलब्ध है।



कृते कंसोफिनेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड  
 हस्ताक्षर/-  
 संजीव कुमार अग्रवाल  
 प्रबंध निदेशक  
 डीआईएन: 01623575

स्थान: नई दिल्ली  
 दिनांक: 30 मई, 2026

**FRATELLI VINEYARDS LIMITED**

[Formerly known as TINNA TRADE LIMITED]

Registered Office : No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030


Website: <https://fratellivines.in/>, email: investor.tl@tinna.com, Telephone No.: 011-49518530 CIN: L11020DL2009PLC186397

**AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026**

(Rs In Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Year Ended			Quarter Ended		Year Ended		
		31-Mar-26	31-Dec-25	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Dec-25	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Mar-25
1	Revenue from Operation	59.22	-	26.04	67.83	12,471.59	3,530.31	6,359.52	3,192.12	18,128.65	30,209.68
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and for Extraordinary items)	(7.79)	(507.21)	(357.89)	(545.45)	(509.61)	(948.69)	(495.42)	(1,454.52)	(2,666.30)	(2,269.40)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and for Extraordinary Items)	(7.79)	(507.21)	(357.89)	(545.45)	(509.61)	(948.69)	(495.42)	(1,454.52)	(2,666.30)	(2,269.40)
4	Net profit/(loss) for the period after Tax(After Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(7.79)	(877.06)	(302.57)	(907.64)	(422.45)	(705.45)	(872.14)	(1,095.28)	(2,491.19)	(1,706.26)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	(7.72)	(877.06)	(302.57)	(907.57)	(422.45)	(681.66)	(886.18)	(1,055.34)	(2,473.73)	(1,690.86)
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	4,347.24	4,347.24	4,327.79	4,347.24	4,327.79	4,347.24	4,347.24	4,327.79	4,347.24	4,327.79
7	Other Equity	-	-	-	25,301.14	25,790.56	-	-	-	9,249.10	11,304.68
8	Earning Per Share(face value of Rs 10/- each share) (for continuing and discontinued operation)										
	(a) Basic	(0.01)	(2.03)	(0.74)	(2.09)	(1.04)	(1.63)	(2.01)	(3.44)	(5.75)	(4.22)
	(b)Diluted	(0.01)	(2.03)	(0.74)	(2.09)	(1.04)	(1.63)	(2.01)	(3.44)	(5.75)	(4.21)

**Note:-**  
 1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 are available on the Stock Exchange websites ie [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the company's website [www.fratellivines.in](http://www.fratellivines.in)  
 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30th May 2026.



Place : New Delhi  
 Date : 30th May, 2026

FOR FRATELLI VINEYARDS LIMITED  
 Sd/-  
 Gaurav Sekhri  
 Managing Director  
 DIN No. 00090676

**KIMIA BIOSCIENCES LIMITED**

Regd. Office : Village Bhandis, Tehsil Sohna, Dist. Gurgaon , Haryana - 122102  
 Phone: +91 965474544, 9654206544 Email: [compliance.kimia@gmail.com](mailto:compliance.kimia@gmail.com) & [info@kimiabiosciences.com](mailto:info@kimiabiosciences.com)  
 Website: [www.kimiabiosciences.com](http://www.kimiabiosciences.com), CIN : L24239HR1993PLC032120



**AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026**

(₹ Lakhs except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year ended	
		31-03-2026	31-12-2025	31-03-2025	31-03-2026
I	Revenue from Operations	2,719.98	3,010.06	3,824.38	11,488.38
II	Other Income	100.69	9.96	44.20	162.17
III	<b>Total Income (I+II)</b>	<b>2,820.67</b>	<b>3,020.02</b>	<b>3,868.58</b>	<b>11,650.55</b>
IV	<b>Expenses:</b>				
a)	Cost of materials consumed	1,381.03	1,707.53	2,892.82	6,565.79
b)	Change in inventories of finished goods and work-in-progress	322.26	(60.82)	(449.82)	446.09
c)	Employee benefits expenses	303.87	299.24	278.56	1,261.61
d)	Finance costs	75.30	74.86	140.16	351.57
e)	Depreciation and amortisation expense	115.51	85.15	87.90	391.32
f)	Other expenses	446.26	408.43	284.78	1,786.16
V	<b>Total Expenses (IV)</b>	<b>2,644.23</b>	<b>2,514.59</b>	<b>3,234.40</b>	<b>10,804.54</b>
VI	<b>Profit/(loss) before exceptional items and Tax (III-V)</b>	<b>176.44</b>	<b>505.43</b>	<b>634.18</b>	<b>846.01</b>
VII	Exceptional Items	-	-	-	-
VIII	<b>Profit/(loss) before tax (IV-VI)</b>	<b>176.44</b>	<b>505.43</b>	<b>634.18</b>	<b>846.01</b>
IX	<b>Tax expenses:</b>				
a)	Current Tax	-	-	-	-
b)	Deferred Tax charge / (credit)	139.13	(38.72)	435.01	102.64
X	<b>Profit/(loss) for the period (VI-VII)</b>	<b>37.31</b>	<b>544.15</b>	<b>199.17</b>	<b>743.37</b>
XI	<b>Other Comprehensive Income</b>				
A.	Items that will not be reclassified to Profit or Loss (Net of Tax)				
-	Remeasurement of defined benefit plans	42.85	-	3.04	42.85
B.	Items that will be reclassified to Profit or Loss (Net of Tax)	(10.78)	-	(0.77)	(10.78)
XII	<b>Total Comprehensive Income for the period (VIII+IX)</b>	<b>69.38</b>	<b>544.15</b>	<b>202.98</b>	<b>775.44</b>
XIII	Paid up equity share capital (Face value of Rs.1 per equity share)	473.13	473.13	473.13	473.13
XIV	<b>Other Equity</b>				
XV	<b>Earnings per equity share (not annualised)</b>				
	Basic In Rs.	0.15	1.15	0.43	1.64
	Diluted In Rs.	0.15	1.15	0.43	1.64

**Notes:-**  
 1. The business activity of the Company falls within a single primary business segment viz 'Pharmaceuticals' and hence there is no other reportable segment as per Ind AS 108 'operating segments'.  
 2. The figures for the quarter ended 31st March 2026 and 31st March 2025 are the balancing figures between audited figures for the full financial figures and the published year to date figures for the nine months.  
 3. The Company has carried forward deferred tax assets of Rs. 62.83 Lakhs which in the opinion of the management, based on the future projection the Company is expected to generate taxable income as per business plan and will be able to utilize this amount within prescribed period.  
 4. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 29, 2026.



FOR KIMIA BIOSCIENCES LIMITED  
 Sd/-  
 Sameer Goel  
 (Managing Director & CEO)  
 DIN - 09161786

Place: Gurgaon  
 Date: May 29, 2026



एमएमटीसी लिमिटेड

सीआईएन: L51909DL1963GOI004033

(भारत सरकार का उपक्रम)

कोर-1, रकोप कॉम्प्लेक्स, 7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

ईमेल: [mmtc@mmtclimited.com](mailto:mmtc@mmtclimited.com), वेबसाइट: [www.mmtclimited.com](http://www.mmtclimited.com)

**31/03/2026 को खत्म हुई तिमाही और साल के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अंकेषित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश।**

(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर, करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन								समेकित	
		31.03.26 को समाप्त तिमाही (अंकेषित)	31.03.25 को समाप्त तिमाही (अंकेषित)	वर्ष 31.03.26 को समाप्त हुआ (अंकेषित)	वर्ष 31.03.25 को समाप्त हुआ (अंकेषित)	31.03.26 को समाप्त तिमाही (अंकेषित)	31.03.25 को समाप्त तिमाही (अंकेषित)	वर्ष 31.03.26 को समाप्त हुआ (अंकेषित)	वर्ष 31.03.25 को समाप्त हुआ (अंकेषित)		
1	परिचालन से कुल आय	0.61	0.23	3.41	2.69	0.61	0.23	3.41	2.69		
2	टैक्स से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों से पहले)	(80.51)	10.56	(10.40)	116.04	13.82	12.47	164.90	128.63		
3	टैक्स से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	15.55	12.57	463.30	97.20	109.89	14.48	638.61	114.30		
4	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	31.70	0.32	212.07	69.53	126.04	2.23	387.38	86.63		
5	कुल व्यापक आय, जिसमें कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) और कर के बाद अन्य व्यापक आय शामिल हैं।	37.01	(0.64)	243.08	101.69	131.25	1.01	418.53	118.55		
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹ 1 प्रत्येक)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
7	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	1549.13	1306.05	1549.13	1306.05	1,970.72	1,552.19	1,970.72	1,552.19		
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक ₹1/- का) (वार्षिककृत नहीं):										
	(ए) मूल	0.21	0.00	1.41	0.46	0.84	0.01	2.58	0.58		
	(बी) तनुकृत	0.21	0.00	1.41	0.46	0.84	0.01	2.58	0.58		

**नोट्स:-**  
 (1) पिछली तिमाही/साल के आंकड़ों को, जहाँ भी जरूरी हो, तुलना करने लायक बनाने के लिए उसी हिसाब से फिर से समूह बनाना/ फिर से व्यवस्थित किया गया है। आंकड़ों को फिर से समूह बनाना/ फिर से व्यवस्थित करना सिर्फ वित्तीय विवरणों में दिखाने के खास मकसद के लिए है और इससे एमएमटीसी के कानूनी रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता है। एमएमटीसी लागू कानूनों के तहत अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखता है।  
 (2) 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम, पूर्ण वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष-दर-वर्ष आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।  
 (3) उपरोक्त वित्तीय परिणामों की निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निर्देशक मंडल द्वारा 29.05.2026 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत सी एंड एजी द्वारा समीक्षा के अधीन है।  
 (4) ऊपर दिया गया डेटा संघी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दखिल निर्देशक मंडल के आदेश द्वारा तिमाही/सालाना वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही/सालाना वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) और [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट ([www.mmtclimited.com](http://www.mmtclimited.com)) पर उपलब्ध है।



स्थान: नई दिल्ली  
 दिनांक: 29.05.2026

**जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड**

सीआईएन : L74899DL1995PLC064007

पंजीकृत कार्यालय : 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, उत्तरी दिल्ली-110034

ई-मेल : [investor.relations@grmrice.com](mailto:investor.relations@grmrice.com) | वेबसाइट : [www.grmrice.com](http://www.grmrice.com) दूरभाष : 011-47330330 | फैक्स : 011-0180-2653673

**31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश**

[सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के संदर्भ में]

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन					समेकित				
		समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2026 (लेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31 दिसम्बर, 2026 (अ-लेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2025 (लेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2026 (लेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2025 (लेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2026 (अ-लेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2025 (लेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2026 (लेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2025 (लेखापरीक्षित)	
1	परिचालन से कुल आय	29,298.49	32,618.75	24,291.70	1,18,585.42	91,314.68	59,720.14	49,278.60	29,138.88	1,76,919.60	
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित नஷा/अवधान असाधारण मदों से पूर्व)	2,056.90	1,753.09	2,262.48	7,169.34	6,988.51	3,132.82	2,545.99	2,895.41	10,074.74	
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित नஷा/अवधान असाधारण मदों के पश्चात)	2,056.90	1,753.09	2,262.48	7,169.34	6,988.51	3,132.82	2,545.99	2,895.41	10,074.74	
4	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादित नஷा/अवधान असाधारण मदों के पश्चात)	1,489.95	1,312.49	1,585.62	5,315.86	5,100.22	2,293.01	1,926.11	2,047.70	7,604.37	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित लाभ/(हानि)	1,626.97	1,312.94	1,584.52	5,458.44	5,099.10	2,276.79	1,912.67	2,013.87	7,474.82	
6	गैर नियंत्रणीय व्याज को एट्रीब्यूटबल कुल व्यापक आय	-	-								